

**09<sup>th</sup> November, 2018**

To,

The Manager (Listing)  
**BSE Limited**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai-400 001

**Scrip Code: 532290**

To,

The Manager (Listing)  
**National Stock Exchange of India Limited**  
Exchange Plaza,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai-400 051

**Scrip Code: BLBLIMITED**

Sub.: Submission of copies of newspaper advertisement.

Ref.: Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and Section 124(6) of the Companies Act, 2013

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to the applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement published as per the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and Section 124(6) of the Companies Act, 2013 in "**Financial Express**" (English) (all editions) on **06<sup>th</sup> day of November, 2018** and **Jansatta (Hindi)** (Delhi, NCR edition) on **07<sup>th</sup> day of November, 2018**.

Kindly place the above information on records.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For **BLB LIMITED**

*Varsha*



**(VARSHA YADAV)**  
**COMPANY SECRETARY**

M. No. : A39192

Place : H. No. 4760-61/23, 3<sup>rd</sup> Floor,  
Ansari Road, Darya Ganj,  
New Delhi-110002

**BLB Limited**

CIN : L67120HR1981PLC051078  
Corporate Member : NSE & BSE

Corporate Office : H.No. 4760-61/23, 3<sup>rd</sup> Floor, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110 002 Tel : 011-49325600  
Registered Office : SCO (Shop Cum Office) No.22, Spring Field Colony, Extension No.1, Near Sector 31-32, Faridabad-121003, Haryana  
Website : www.blblimited.com, Email : infobl@blblimited.com



The latest trends in business. The latest trends in trends.

**CENLUB INDUSTRIES LIMITED**  
 233-234 Sector-58 Ballabgarh  
 121004, Haryana  
 Tel: 0129-2307263  
 E-mail: cenlub@cenlub.in  
 20HR1992PLC039087

**Notice**  
 Notice is hereby given that Meeting of the Board of Directors of SLESHA COMMERCIAL LIMITED (Formerly known as Shivam Techno Private Limited) is scheduled to be held on November 10, 2014, Tuesday at 12:30 PM. Registered Office of the Company is at Room No. 18, Kailash Darshan, Hansa Cama Lane, Ghatkopar (W), Mumbai - 400 075. Website: www.shivamtechno.com. Email: roc.shivamtechno@gmail.com. CIN: L74140MH1985PLC2582700

1. To consider and approve the Financial Results for the quarter ended 30th September, 2014 pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.

Further, pursuant to the provisions of (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2014 read with Company's code for Prohibition of Insider Trading, the Company has designated persons and their names as defined under the aforesaid Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2009. E-mail: investors@nil.com

**OF SHARE CERTIFICATE**  
 Share certificate no. 170 for 1687 shares  
 Prasad lost/misplaced by Mr. S Narayanasamy  
 s/narasamy Folio No. 231 (shareholder),  
 Kalyani Company for the issuance of duplicate  
 who has claim in respect of the above  
 shares to the Company at its Registered  
 Office, 15 (fifteen) days from the date of this  
 notice. If no communication received  
 within such share certificate will be doing so  
 in such manner and the Company  
 in any manner.

**For HNT Limited**  
 Sd/-  
 Deepak Bansal  
 Company Secretary

**नैशनल बैंक**  
 संचालन का प्रतीक  
 Notice is hereby given that the Board of Directors of Jewwanchara Limited (Formerly known as Arshad Agencies Ltd.) is scheduled to be held on November 10, 2014, Tuesday at 12:30 PM. Registered Office of the Company is at Floor-2, 174, Bhanu Chandra Gandhi Marg, Lohar Chawl, Ghatkopar (W), Mumbai - 400 002. Inter alia, to consider and approve the following matters:  
 1. To consider and approve Unaudited Financial

**BLB LIMITED**  
 CIN: L87120HR1981PLC051078  
 Regd. Office: SCO No. 22, Spring Field Colony Extn No. 1,  
 Near Sector 31-32, Faridabad - 121003, Haryana  
 Email ID: info@blb@blblimited.com, Website: www.blblimited.com

**NOTICE**  
 NOTICE is hereby published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (hereinafter referred to as "the Rules"), notified by the Ministry of Corporate Affairs effective from 07th Sept., 2016 and which were further revised on 28th February, 2017. The aforesaid Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividends have not been claimed by the shareholder for the last 7 consecutive years or more to the DEMAT Account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

The Company has communicated individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to the said Demat Account for taking appropriate action(s). Shareholders are requested to refer the website of the Company ("www.blblimited.com") under the "Investor Relation" section for the list of such shareholders, along with the Folio No. or DP ID - Client ID to verify the details of unclaimed dividends and the shares liable to be transferred in favour of the IEPF Authority.

It may be further noted that to comply with the requirements of the Rules, the Company will take necessary steps for issuances of duplicate share certificate(s) in lieu of the physical share certificate(s), therefore the original share certificate which are registered in the name of the shareholder(s) shall stand cancelled automatically and be deemed non-negotiable, and further in case of the beneficiary shareholder(s) holding shares in DEMAT form, Company shall inform depositories, where the shareholder(s) have their account, by way of corporate action, for transferring the said shares in favour of the IEPF Authority.

In case Company does not receive any communication from the concerned shareholder(s), it shall, with a view to adhering with the requirements of the IEPF Rules, shall transfer the shares as per the procedure set out in the Rules.

No claim shall lie against the Company in respect of the unclaimed dividend amount transferred to the IEPF and similarly for the shares transferred to IEPF Authority pursuant to the above mentioned rules. Shareholders may take note that the shares and unclaimed dividends which have been transferred to the IEPF Authority, can be claimed back after following such procedure and on submission of such documents and forms as may be prescribed by the IEPF Authority in their rules mentioned herein above.

In case the shareholder(s) have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact the Company Secretary of the Company at our Corporate Office, at H. No. 4760-81, 3rd Floor, Ansari Road, Darya Gang, New Delhi-110002.  
 Tel: 011-49326600, Email: cs@blb@blblimited.com

**For BLB Limited**  
 Sd/-  
 (Varsha Yadav)  
 (Company Secretary)  
 Place: New Delhi



**सांकेतिक कक्षा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)**  
 भारतीय फाइनेंशियल असेट्स इनफोर्समेंट और रिकवरी एजेंसी इन्स्टीट्यूट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिविलियन इन्स्टीट्यूट एक्ट 1908 के अन्तर्गत प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकाशित सूचना के प्राधिकृत अधिकारी ने नैशनल बैंक के प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाए गए खाते में उम्मेदवारों के सामने दी गई सारी खातों पर नोटिस की तारीख/उक्त नोटिसों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए सांग नोटिस जारी किया था। कंपनी/अधिकारी/गारन्टरों और जन समाज को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्येक खाते के सामने दी गई नोटिसों के साथ पत्रों में उक्त अधिनियम की धारा 19(a) के अन्तर्गत उम्मेदवार शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटिस जारी किया है। नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्येक खाते के सामने दी गई नोटिसों के साथ पत्रों में उक्त अधिनियम की धारा 19(a) के अन्तर्गत उम्मेदवार शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटिस जारी किया है। नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्येक खाते के सामने दी गई नोटिसों के साथ पत्रों में उक्त अधिनियम की धारा 19(a) के अन्तर्गत उम्मेदवार शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटिस जारी किया है।



